



RKL/SX/2022-23/35

August 11, 2022

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001.  Scrip Code: 532497	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot no. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051.  Scrip Code: RADICO
--	--

**Sub: Submission of copies of published Unaudited Financial Results**


Dear Sir/ Madam,

In continuation of our letter dated August 10, 2022, we enclose copies of the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2022, as published today in “Business Standard” (English) and “Hindustan”, Moradabad edition (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,  
**For Radico Khaitan Limited**

  
**(Dinesh Kumar Gupta)**  
Vice President – Legal &  
Company Secretary



**Email Id: [Investor@radico.co.in](mailto:Investor@radico.co.in)**

Encl.: As above

**Radico Khaitan Limited**

Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-op. Industrial Area  
Mathura Road, New Delhi - 110044

Ph : (91-11) 4097 5444/555 Fax: (91-11) 4167 8841-42

Registered Office : Bareilly Road, Rampur-244901 (U.P.)

Phones : 0595-2350601/2, 2351703 Fax : 0595-2350009

e-mail : [info@radico.co.in](mailto:info@radico.co.in), website : [www.radicokhaitan.com](http://www.radicokhaitan.com)

CIN No. L26941UP1983PLC027278

**JAISALMER**  
 CRAFTED BAR COLLECTIBLES  
*The Royally Awaited*  
 NOW AVAILABLE IN INDIA

**Radico Khaitan Limited**  
 Registered Office : Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)  
 Tel. No.: 0595-2350601/2, 2351703 Fax No.: 0595-2350009  
 Email : investor@radico.co.in Web: www.radicoKhaitan.com  
 CIN: L26941UP1983PLC027278

(Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulation 2015)  
**Extract of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated)** (₹ In lakhs)  
 for the quarter ended June 30, 2022 (Except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1.	Total income from Operations	318816.77	322642.93	288470.04	1248152.96	318816.77	322658.32	288110.05	1247792.97
2.	Net Profit (before Tax and Exceptional Items)	7718.59	6294.04	7762.32	33525.08	8088.85	6673.91	7867.22	34631.52
3.	Net Profit before Tax (after Exceptional Items)	7718.59	6294.04	7762.32	33525.08	8088.85	6673.91	7867.22	34631.52
4.	Net Profit after tax (after Exceptional Items)	5828.79	4636.06	5982.75	25216.31	6199.05	5015.93	6087.65	26322.75
5.	Total Comprehensive Income for the period	5795.12	4751.14	5954.69	25249.07	6165.35	5130.41	6059.43	26355.41
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.2/- each)	2673.48	2673.48	2671.88	2673.48	2673.48	2671.88	2673.48	2673.48
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) in the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2022	-	-	-	196007.09	-	-	-	200012.21
8.	Earning per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs.2/-)								
	(a) Basic	4.36	3.47	4.48	18.87	4.64	3.75	4.56	19.70
	(b) Diluted	4.36	3.47	4.48	18.87	4.64	3.75	4.56	19.70

- Notes:**
- The unaudited financial results (standalone & consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Wednesday, August 10, 2022. The Statutory Auditors have carried out limited review of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2022.
  - The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.radicoKhaitan.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com
  - This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For and on behalf of the Board  
 Sd/-  
**Dr. Lalit Khaitan**  
 Chairman & Managing Director  
 DIN No. 00238222

New Delhi  
 August 10, 2022



**DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED**  
 Statement of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 - Standalone

[Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the Listing Regulations] (₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended
		30-Jun-2022	31-Mar-2022
		Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	855.04	442.84
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(2,323.41)	(5,595.54)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(2,323.41)	(5,595.54)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(2,323.41)	(5,595.58)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2,323.41)	(5,595.58)
6	Paid up Equity Share Capital	200.00	200.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(7,923.89)	(5,600.48)
8	Securities Premium Account	-	-
9	Net worth	(7,723.89)	(5,400.48)
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	70,270.00	70,270.00
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	N/A	N/A
12	Debt Equity Ratio	(9.10)	(13.01)
13	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
	1. Basic:	(116.17)	(279.78)
	2. Diluted:	(116.17)	(279.78)
14	Capital Redemption Reserve	N/A	N/A
15	Debt Service Coverage Ratio	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	-	-
17	Interest Service Coverage Ratio	-	-

**DBL INFRA ASSETS PRIVATE LIMITED (Consolidated)** (₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended
		30-Jun-22	31-Mar-22
1	Total Income from Operations	2,720.54	11,311.51
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(2,929.90)	(8,250.61)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(2,929.90)	(8,250.61)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(2,917.71)	(8,160.72)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4,552.78)	(15,612.47)
6	Paid up Equity Share Capital	200.00	200.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(18,794.52)	(14,420.04)
8	Securities Premium Account	-	-
9	Net worth	(18,594.52)	(14,220.04)
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	97,111.12	95,640.12
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	N/A	N/A
12	Debt Equity Ratio	(5.22)	(6.73)
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
	1. Basic:	(227.64)	(780.62)
	2. Diluted:	(227.64)	(780.62)
14	Capital Redemption Reserve	N/A	N/A
15	Debt Service Coverage Ratio	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	-	-
17	Interest Service Coverage Ratio	-	-

# - Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

- Notes:**
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations, were reviewed and approved by the audit committee and Board of Directors at their respective meetings held on 09.08.2022.
  - The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and the Company i.e. www.dbiapl.com
  - For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE Limited) and can be accessed on the URL i.e. www.dbiapl.com
  - The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

For and on behalf of the Board of Directors  
**DBL Infra Assets Private Limited**  
 Dilip Suryavanshi  
 Director  
 DIN - 00039944

Place: Bhopal  
 Date: 09 August 2022

**TATA POWER**  
 (Corporate Contracts Department)  
 The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence,  
 2<sup>nd</sup> Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road  
 Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India  
 (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following 3 tender packages (Two-part Bidding) in Mumbai.

- Replacement of GIS Software Platform at Mumbai Distribution (Tender Ref CC23VJS023).

Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter up to **15:00 hrs of 22<sup>nd</sup> August 2022.**

**Corrigendum-1:**

- Rate Contract (2 years) for supply of 22KV, 25KA, 3WAY & 4WAY Ring Main Unit (Tender Ref CC23PNR014).
- Rate Contract (2 years) for supply of 22KV, 21KA, 3WAY & 4WAY Ring Main Unit (Tender Ref CC23PNR015)

EOI submission for above 2 tenders extended till **15:00 hrs of 17<sup>th</sup> August 2022.**  
 For detailed NITs, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>.  
 Also, all future corrigendums (if any), to the above tenders will be informed on Tender section on website <https://www.tatapower.com> only.

**WEBFIL LIMITED**  
 Regd. Office: "YULE HOUSE", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata-700011  
 Phone: 033 2242 8210/8550/1988, 2248 4671, 2243 1555  
 FAX: +91 33 2242 1335 | E-mail: webfil@webfilindia.com | Website: www.webfilindia.com  
 CIN: L36900WB1979PLC032046

**NOTICE**

**SERVICE OF DOCUMENTS THROUGH ELECTRONIC MODE**  
 This is to inform you that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circulars issued in connection with the present circumstances caused due to COVID-19, the Company shall send all notices and documents like General Meeting Notices (including AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report, Postal Ballot Papers, if any, and other communications to the security holders only through electronic mode, at the designated email addresses registered with the Company or with the DPs.

In terms of the above, the Members, who have not yet registered their email addresses with the Company, are requested to register their e-mail address and mobile number or change therein, if any, in the following manner:

**Members with physical holding:** A scanned copy of signed request letter may be sent to the Company's email id: sneha.kewat@webfilindia.com and/or to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd., email id: mcsta@rediffmail.com mentioning/enclosing the legible scan copy of the following as may be applicable:

- Folio no.;
- Email id;
- Mobile No.;
- Self-attested copy of PAN card.

**Members with demat holding:** Register/update through respective DPs (Any such update effected by the DPs will automatically reflected in the Company's subsequent records)

The Company requests all the Members who have not yet registered or updated their email address/Mobile no./PAN with the Company to register the same at the earliest.

For and on behalf of  
**WEBFIL LIMITED**  
 Sd/-  
**Sneha Kewat**  
 Company Secretary

Place : Kolkata  
 Date : 10.08.2022

**RSWM LIMITED**  
 CIN: L17115RJ1960PLC008216  
 Registered Office: Kharigram, P.O. Gulabpura - 311 021, Distt. Bhilwara, Rajasthan  
 Phone:+91-1483-223144 to 223150, 223478, Fax:+91-1483-223361, 223479  
 Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P)  
 Phone:+91-120-4390300 (EPABX), Fax:+91-120-4277841  
 E-mail: [rswm.investor@injbhilwara.com](mailto:rswm.investor@injbhilwara.com); Website: <https://www.rswm.in>

**NOTICE OF THE 61<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING / E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

In continuation of our Newspaper Advertisement dated 3<sup>rd</sup> August, 2022, NOTICE is hereby given that the **61<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM")** of RSWM Limited ("the Company") will be held on **Tuesday, the 06<sup>th</sup> day of September, 2022 at 02:00 P.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the 61<sup>st</sup> AGM without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company at Kharigram, P.O. Gulabpura - 311 021, Distt. Bhilwara, Rajasthan.

In view of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (read together with Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 Circular No. 02/2021 dated January, 13, 2021 Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020) and Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 as also the various circulars issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 (read together with Circulars Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020) (collectively referred as "Applicable Circulars") permitted the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") during the calendar year 2022, without the physical presence of the members. In compliance with these Applicable Circulars, the 61<sup>st</sup> AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the venue.

In compliance with the Applicable Circulars, the Notice of the 61<sup>st</sup> AGM and the Annual Report of the Company including audited financial statements for the financial year 2021-22 along with Director's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on **10<sup>th</sup> August, 2022** through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 61<sup>st</sup> AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.

The Notice of the 61<sup>st</sup> AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at [www.rswm.in](http://www.rswm.in) on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting and e-voting during the AGM facility) i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

**Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:**

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/as well as e-voting during the AGM to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the Notice of 61<sup>st</sup> AGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency.

The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses have been provided in the Notice of AGM. Login details for e-voting have been made available to the members on their registered email address.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Wednesday, the 31<sup>st</sup> August, 2022 to Tuesday, the 06<sup>th</sup> September, 2022 (both days inclusive)** for annual closing and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the financial year 2021-22 as recommended by the Board of Directors of the Company, if declared by the members at the AGM.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date of 30<sup>th</sup> August, 2022**, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on **cut-off date i.e. 30<sup>th</sup> August, 2022** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the Annual General Meeting.

The remote e-voting period commences on **Friday, the 02<sup>nd</sup> September, 2022 at 9:00 A.M.** and end on **Monday, the 05<sup>th</sup> September, 2022 5:00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on **Tuesday, 30<sup>th</sup> August, 2022**, i.e. the date prior to the commencement of book closure, will be paid the Dividend of Rs. 25/- (250%) per Equity Share of the face value of Rs. 10/- each for the financial year 2021-22, as recommended by the Board, if declared at the 61<sup>st</sup> AGM of the Company, within 30 days from the date of AGM.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the **cut-off date i.e. 30<sup>th</sup> August, 2022**. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the **cut-off date i.e. 30<sup>th</sup> August, 2022** he/she may obtain login id and password by sending a request over at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 61<sup>st</sup> AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting during the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business (es) set forth in Notice of 61<sup>st</sup> AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Members, whose email address and banks details are not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s, are requested to get their email address and banks details registered by following the steps as given below:

<b>In case of Physical shareholding</b>	Send a duly signed request letter in <b>Form ISR-1</b> along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. <b>MCS Share Transfer Agent Limited (Unit : RSWM Limited)</b> , F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or scanned copy on email at <a href="mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com">helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</a> and provide the following details/documents for registering email address: <b>a)</b> Folio No., <b>b)</b> Name of shareholder, <b>c)</b> Email ID, <b>d)</b> Copy of PAN card (self-attested), <b>e)</b> Copy of Aadhar (self-attested) <b>f)</b> Copy of share certificate (front and back).
<b>In case of Demat shareholding</b>	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account details: **a)** Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, **b)** the Bank Account type, **c)** Bank Account Number, **d)** MICR Code Number, **e)** IFSC Code, and **f)** Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mahesh Kumar Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 2870) of M/s Mahesh Gupta & Company, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and transparent manner. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company at [www.rswm.in](http://www.rswm.in), website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting/ e-voting during the AGM facility) i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and by filing with the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company. Subject to the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. **06<sup>th</sup> September, 2022.**

Members may note that the Income Tax Act, 1961 ("IT Act, 1961"), as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1<sup>st</sup> April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of Dividend, if declared by the Shareholders at the AGM. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 on or before **20<sup>th</sup> August, 2022.**

The shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents/declarations to the Company at [tds.rswm22@injbhilwara.com](mailto:tds.rswm22@injbhilwara.com) / Company's RTA i.e. M/s. MCS Share Transfer Agent Limited to enable the Company in applying the appropriate TDS on Dividend payment.

A separate email communication informing the shareholders regarding this change in the Income-Tax Act, 1961 as well as the relevant procedure to be adopted for submission of necessary declarations / documents by them to avail the applicable tax rate has been sent by the Company to the all shareholders on 11<sup>th</sup> July, 2022 and copy of the said communication is also available on the website of the Company at the following link <https://www.rswm.in/Intimation-Communication-of-TDS-on-Dividend>.

For more details, kindly refer the **note no. 26 of the Notice of AGM relating to Dividend TDS communication.**

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-1020 990 and 1800-224- 430 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). In case of any grievance connected with facility for remote e-voting or e-voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) or at telephone number +91 22 24994360.

By order of the Board  
**for RSWM LIMITED**  
 Sd/-  
**Surender Gupta**  
 V.P Legal & Company Secretary  
 FCS - 2615

Place: Noida (U.P.)  
 Date: 10<sup>th</sup> August, 2022

रिजल्ट निरस्त के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल

प्रशासन, विधि सेवादाता। शासन द्वारा जारी की गई 2021 की परीक्षा के रिजल्ट निरस्त करने के आदेश के खिलाफ रिजल्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 16 अगस्त को अपील दाखिल की गई है।

पौसीसप्री 2021

इस प्रस्ताव में अपील करने वाले के नाम 16 अगस्त को अपील दाखिल की गई है।

शासन द्वारा जारी की गई 2021 की परीक्षा के रिजल्ट निरस्त करने के आदेश के खिलाफ रिजल्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 16 अगस्त को अपील दाखिल की गई है।

श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज

श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है।

श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है।

अपने गिरेबान में झांके भाजपा: कांग्रेस

अपने गिरेबान में झांके भाजपा: कांग्रेस का आरोप लगाया गया है।

कैबिनेट मंत्री संजय निवादा के खिलाफ जारी वारंट निरस्त

कैबिनेट मंत्री संजय निवादा के खिलाफ जारी वारंट निरस्त करने का फैसला किया गया है।

कार्यालय प्रधानमंत्री, राजकीय मेडिकल कलेज, ग्राजुमण्डल

Table with 4 columns: S.No., Name, Age, and Education. Lists names of candidates for a medical college.

कार्यालय ग्राम पंचायत पटवाई, विकास खण्ड शाहबाद, रामपुर

Table with 4 columns: S.No., Name, Age, and Education. Lists names of candidates for a village panchayat.

प्रेस विज्ञापित

प्रेस विज्ञापित का विवरण और संपर्क जानकारी।

प्रेस विज्ञापित

प्रेस विज्ञापित का विवरण और संपर्क जानकारी।

प्रेस विज्ञापित


प्रेस विज्ञापित का विवरण और संपर्क जानकारी।

प्रेस विज्ञापित

प्रेस विज्ञापित का विवरण और संपर्क जानकारी।

सम्माननिधि से वंचित किसानों को औरमौका

सम्माननिधि से वंचित किसानों को औरमौका देने का फैसला किया गया है।



रेडिको खेतान लिमिटेड Radico. Contact information and services.

Table with 4 columns: S.No., Name, Age, and Education. Lists names of candidates for a government job.

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी का विवरण।

Table with 9 columns: S.No., Name, Age, Education, and other details. Lists names of candidates for a government job.

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी का विवरण और संपर्क जानकारी।